

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020 — माघ 4, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक -768/283/21-ब/छ. ग./2020. — राज्य सरकार, छ. ग. राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक -28/चार-/विसउपचु/2019/7864 दिनांक 25-09-2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2020 के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु सभी जिलों में कलेक्टरों द्वारा नियुक्त किये गये सेक्टर अधिकारियों को 28 जनवरी 2020 से 03 फरवरी 2020 तक विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सोहगौरा, अवर सचिव.